

*Asa foetida* (vgl. जतुक) AK. 2, 9, 40. H. 422. H. an. MED. — 2) f. आ  
a) Lack Hār. 259. — b) eine best. wohlriechende Pflanze, = जतुकत्, जतू-  
का, जनी u. s. w. BHAR. zu AK. 2, 4, 5, 19. ÇKDR. Nach dem ÇKDR. a)  
= जनीनामगन्धद्रव्य. — β) = पर्पटी (nach BHĀVAPR.). — γ) = (लता-  
विशेषः । सा तु मालवे प्रसिद्धा) जतुकारी, जननी, चक्रवर्तिनी u. s. w.  
(nach RĀĠAN.). Ueberall scheint eine und dieselbe Pflanze gemeint zu  
sein. — c) *Fledermaus* (vgl. जतुनी, जतूका) AK. 2, 3, 26. H. 1336. H. an.  
MED. — Vgl. अश्वजतुक.

जतुकारी (जतु + कारी von 1. कार्) f. N. einer Pflanze, = जतूका RĀĠAN.  
im ÇKDR.

जतुकत् (जतु + कृत्) f. eine best. wohlriechende Pflanze AK. 2, 4, 5, 19.

जतुकला (जतु = कृत्) f. = पर्पटी (also = जतुकत्) BHĀVAPR. im ÇKDR.

जतुगृह (जतु + गृह्) n. ein mit Lack und andern brennbaren Stoffen  
bestrichenes und angefülltes Haus; ein solches hatte Purokṣana auf den  
Anschlag Durjodhana's in Vāraṇṣya bei Gelegenheit eines Festes  
herrichten lassen, um darin die Pāṇḍava zu verbrennen. Diese, bei Zei-  
ten gewarnt, legten selbst Feuer an, bei welchem der Verräther um-  
kam. MBh. 1, 313. 2250. Buch 1, A bhj. 141—151 führt den Titel जतु-  
गृहपर्वन्.

जतुगृह (जतु + गृह्) n. dass. MBh. 3, 1937.

जतुनी f. = जतूका *Fledermaus* TRIK. 2, 5, 33.

जतुपुत्रक (जतु + पुत्र) m. Schachstein oder ein Stein in einem andern  
Spiele (mit Lack bestrichene Figur) TRIK. 2, 10, 18. Hār. 171. — Vgl.  
जयपुत्रक.

जतुमणि (जतु + मणि) m. Muttermal oder ein ähnlicher Fleck Suçr. 1, 92, 3. 292, 11. नीरुजं समुत्पन्नं माण्डलं कफरक्तजम् । सक्तं रक्तमीषञ्च  
स्रह्यां जतुमणिं विडुः ॥ 296, 2. 2, 120, 9.

जतुमुख (जतु + मुख) m. eine best. Art Reis Suçr. 1, 196, 2.

जतुरस (जतु + रस) m. Lack RĀĠAN. im ÇKDR.

जतुवैश्वन् (जतु + वै) n. = जतुगृह MBh. 1, 361. 379.

जतुकर्ण (जतु *Fledermaus* + कर्ण) m. N. pr. eines Mannes, v. l. für  
जातुकर्ण gaṇa गर्गादि zu P. 4, 1, 105.

जतूका f. = जतुका 1) eine best. wohlriechende Pflanze AK. 2, 4, 5,  
19. — 2) *Fledermaus* ÇABDAR. im ÇKDR.

जत्रुं Uṇ. 4, 105. in der älteren Sprache m. und nur in der Mehrzahl ge-  
braucht. Nach ÇAT. Br. 12, 2, 4, 11 werden deren 16 gezählt; wenn oben  
die कीकसा: richtig bestimmt sind, so wären sie, nach der Stelle उभयत्र  
पर्श्वो बद्धा: कीकसाम् च जत्रुषु च ÇAT. Br. 8, 6, 2, 10, die Fortsätze der  
Wirbel oder die Rippenhöcker, *tubercula costarum*, womit jedoch nicht  
zu stimmen scheint, dass dieselben zur Brust gerechnet werden. In der  
späteren Sprache n. *Schlüsselbein* AK. 2, 6, 2, 29. H. 388. पुरा जत्रुभ्यं घ्रातृदः  
RV. 8, 1, 12. जत्रवः AV. 11, 3, 10. VS. 25, 8. Suçr. 1, 66, 3. 86, 13. 250, 14. 2,  
15, 15. ऊर्ध्वजत्रु was oberhalb des Schlüsselbeines liegt (nach der Körper-  
theilung in Extremitäten, Bauch und Brust, Rücken und was über dem  
Rumpf ist) 1, 82, 8. 350, 15 (wo zu lesen sein wird घ्रातृ उर्ध्वमूर्ध्वजत्रु). 2,  
207, 21. JĀĠN. 3, 88. VARĀH. BRH. S. 50, 2. विषमैर्जत्रुभिः (pl.), उन्नतजत्रु 67,  
30. असजत्रुणि 68, 25. जत्रुदेशे MBh. 3, 713. 14, 2322. HARIV. 12258. जत्रा-  
वताउपचक्रम् BṬĀG. P. 8, 11, 14. निगूढ° 4, 19, 27. गूढ° R. 1, 1, 12. दृढ°

(गूढ°?) 5, 32, 10. सु° MBh. 3, 5120.

जत्रुक n. = जत्रु *Schlüsselbein* ÇABDAR. im ÇKDR.

जत्रुमक जतु + अश्वमक = अश्वमन् n. = शिलाजतु RĀĠAN. im ÇKDR.

जन् I. trans. 1) Präsensformen: a) जन्नामि, जन्नामसि, अज्जन्म, अज्जन्मन्; med.  
जनत, अजनत; nur in der älteren Sprache. — b) जन्ति DHĀTUP. 25, 24.  
P. 6, 1, 192. conj. जजन्त (इन्द्रम्) Sch., जजन्म (इन्द्रम्) 7, 4, 78. Sch. जजिषे,  
जजिषे Vop. 10, 7. 9, 39; vgl. u. II, 2 und unter — व्यति. — c) जायते (vgl. u.  
simpl., प्र, वि und सम्); ep. auch ऽति. — 2) allgemeine Formen: जज्जान,  
जज्जितुम्, जज्जुम् P. 6, 4, 98. जज्जनुम् (ved.); जज्जे, जज्जिन्वम्; जज्जिष्यति, ऽते,  
ep. (प्र) जायति u. s. w.; जज्जिष्यम् 2. du. aor., अज्जिष्य 3. sg. aor.; अज्जिनि  
die pass. Form in der Bed. zeugte RV. 2, 34, 2. जज्जिताम् (P. 3, 4, 16), जज्जि-  
त्वी RV. 10, 65, 7. — 3) caus. जज्जयति DHĀTUP. 19, 63. Vop. 18, 22. ऽते;  
अज्जिजन्त, ज्जिजन्म, अज्जिजन्त; जनया चकार und चक्रे; ज्जिनयित्वै  
(ÇAT. Br. 14, 9, 4, 13). Nach P. 1, 3, 86 und Vop. 22, 2 caus. stets act., aber  
dieses gilt nur für die spätere ungebundene Rede. 1) zeugen, gebären;  
erzeugen, hervorbringen, verursachen, gignere: सद्यः प्रवीता वृषणां  
जजान RV. 3, 29, 3. यथा पुत्रं जनादिति AV. 6, 84, 3. प्रजां जनय पत्यै अ-  
स्मै 14, 2, 24. य एव मामज्जिनत ÇAT. Br. 1, 8, 1, 8. मामज्जिनयाः 9. उता-  
नायामजनयत्सुषूतम् RV. 2, 10, 3. अज्जनयो मृतौ वृत्तपाभयो दिव आ वृत्त-  
पाभ्यः 1, 134, 4. अग्निं नरो जनयत 3, 29, 5. उत स्म यं शिश्रुं यथा नवं जनि-  
ष्टारणां 5, 9, 3. यो अश्विनो रत्नरग्निं जजान 2, 12, 3. 10, 7, 5. रोदसी 1, 160, 4.  
भुवना 2, 35, 2. 40, 5. दिव्युतो दिवः 13, 7. स्वः 3, 61, 4. 4, 40, 2. दैव्यानि  
व्रतानि 7, 75, 3. ÇAT. Br. 2, 2, 4, 3. 1, 8, 1, 8. 9. 14, 9, 4, 27. धातव्यम् TS. 2,  
2, 10, 5. — देवि पुत्रान् जजिष्यसि MBh. 1, 2770. मनसेदं जजान BṬĀG. P.  
5, 7, 13. जमदग्निं ततः पुत्रं जजे सा MBh. 3, 11067 (S. 571). 1, 2627. R. 3, 20,  
22. चैद्योपरि चरज्जि गिरिका सप्त मानवान् HARIV. 1805. (सः) पुमांसं जायते  
पुत्रम् KARANA VJ. in Ind. St. 3, 282, 9. भासो भासानजायत R. 3, 20, 17. यः  
पाण्डुम् — अज्जिजन्त MBh. 1, 2213. R. 1, 16, 8. ÇĀK. 71, 12. जनयित्वा सुतं  
तप्याम् M. 3, 17, 10, 20. यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् 9, 50.  
MBh. 1, 2772. BṬĀG. P. 3, 12, 54. ऋषिम् — भुवो ऽत्तरे जनयते — प्रभुः  
HARIV. 11800. जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः AK. 2, 10, 4. कन्या तु यं पुत्रं  
जनयेद्द्रुहः M. 9, 172. MBh. 1, 2621. 4294. 2, 2598. R. 1, 19, 3. 39, 8. 3, 20,  
15. fgg. RAGH. 8, 28. PAÑĀT. I, 118. 218, 22. प्रूढादयोगव वैश्या जनयामास  
वै सुतम् JĀĠN. 1, 94. पुत्रम् — मतो वै जनयिष्यसि R. 1, 46, 6. जाया जनयते  
पुत्रम् MBh. 1, 3104. न हि त्वं जनितो मया (f.) HARIV. 9238. स तु शब्दे  
दिवं स्तब्धा प्रतिशब्दमज्जिनत् ARG. 6, 13. आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं  
शरीरिणाम् M. 12, 119. मन्वायोरं प्रजानां जनयन्वयम् MBh. 2, 2694. प्रत्य-  
यम् R. 1, 1, 64. प्रीतिम् 2, 95, 16. संक्रोशं राघवस्य विवासनम् 58, 26. जन-  
यति मम चेदं कुत्सितं कर्म लज्जाम् MRĀĠ. 64, 14. HIT. I, 172. RAGH. ed.  
Calc. 1, 77. ÇĀK. 29. 38, 7. VID. 150. जनय रदखाण्डनम् Git. 10, 3. देवदान-  
वपत्ताणां भयं जनयते मरुत् MBh. 3, 12875. कथाप्रतिषेधा वीर अहं जन-  
यते प्रभाम् 8373. लोभो जनयते तृषाम् HIT. I, 133. रेणुर्जनितस्तेन MBh. 4,  
1236. प्रह्वरज्जिता व्यथा PAÑĀT. V, 47. MEGH. 71. 87. ÇĀK. 78. 14, 19.  
जनितायर्थानुरागा येषित् = वनिता AK. 3, 4, 14, 76. Lob, Andacht, Lied  
u. s. w. erzeugen: स्तोममग्नेयै ज्जिजन्म RV. 7, 15, 4. ब्रह्माणि 22. 9. हृदा  
मृतिं जनये चारुमग्नेयै 10, 91, 14. जनानि सुष्टुतिम् 8, 43, 2. 3, 2, 1. geboren  
werden lassen: प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः AV. 7, 19, 1. गोष्ठे नो गा जनय  
यानिषु प्रजाः 13, 1, 19. जनयति न्यमेको ऽपि (ग्रहः) VARĀH. BRH. 20(19).